
	केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)		
	O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX		
सत्यमेव जयते	वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	GST Building, 7 th Floor Near Polytechnic Ambavadi, Ahmedabad-380015	
	सातवीं मंजिल: पोलिटिकलिक के पास		
	आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015		
 079-26305065			 079-26305186

क फाइल संख्या : File No : **V2/83/GNR/2018-19**

6/06/2018

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: **AHM-EXCUS-003-APP-76-18-19**

दिनांक Date : **29.08.2018** जारी करने की तारीख Date of Issue: *6/9/2018*

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

C. file

Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals) Ahmedabad

ग अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश : **34/D2008-09** दिनांक : **17-12-2008** से सृजित

Arising out of Order-in-Original: **34/D2008-09**, Date: **17-12-2008** Issued by: Assistant Commissioner, CGST, Div: Kalol, Gandhinagar Commissionerate, Ahmedabad.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the Appellant & Respondent

M/s. Windsor Machine Ltd

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।


(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रक्रिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.



- (ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- की फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- षोबी/35-इ के अंतर्गत:-


Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद-380016.

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इ.ए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any



nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्टेट) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 की धारा 35F के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 29) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1984 की धारा 23 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होंगे।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,


Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL

This order arises out of an appeal filed by M/s. Windsor Machines Ltd., Plot No.6&7, GIDC, Chhatral, Taluka-Kalol, Distt. Gandhinagar (in short 'appellant') against Order-in-Original Nos.34/D/2008-09 dated 17.12.2008 (in short 'impugned order') passed by the then Deputy Commissioner, Central Excise, Division Kalol, Ahmedabad-III (in short 'adjudicating authority').


2. Briefly stated that the SCN dtd.15.04.2008 was issued to the appellant for wrong availment of Cenvat credit of service tax paid on **CHA and C&F services** for export of goods during the period from 2004-05 to 2006-07 as these services had no nexus with the manufacture and clearance of final product from the place of removal being not 'input service' as defined in Rule 2(l) of the Cenvat Credit Rules, 2004. This SCN was adjudicated by the adjudicating authority vide impugned order disallowed the Cenvat credit of Rs.67,229/- under Rule 14 of the Cenvat Credit Rules, 2004 read with Section 11A of the Central Excise Act, 1944; ordered for payment of interest under Section 11AB *ibid*; imposed penalty of Rs.67,229/- under Rule 15 *ibid* read with Section 11AC *ibid*.

3. Aggrieved with the impugned order, the appellant filed the present appeal wherein, *inter alia*, stated that:

- In case of export, the place of removal is port. As such, service of CHA and C&F Agent provided at port are covered under the inclusive definition of input service.
- As per Board's Circular No.91/8/2007-ST dated 23.08.2007, the place of removal is extended to the destination point and rely upon case laws viz. CCE, Rajkot Vs. Rolex rings Pvt. Ltd-2008(230)ELT-569 (Tri.Ahmd.) and CCE, Rajkot Vs. Adani Pharmachem Pvt. Ltd.-2008(12) STR-593(Tri.Ahmd.).
- The adjudicating authority has not given any reason for imposing penalty under Rule 15*ibid* nor any guilt with respect to ingredient of Rule 15 *ibid* or Section 11AC *ibid* and rely upon case laws viz. Dugar Tetenal India Ltd. Vs. CCE, Jaipur-2002(147)ELT-578(Tri. Del).

4. Personal hearing in the matter was held on 28.08.2018. Shri Vimal A. Thakkar and Shri Vishal J. Patel, authorized representative, appeared on behalf of the appellant and reiterated the grounds of appeal.

5. I have carefully gone through the appeal memorandum, submissions made at the time of personal hearing and evidences available on records. I find that the main issue to be decided is whether the appellant is entitled to Cenvat credit of service tax paid on the CHA and C&F services availed or otherwise. Accordingly, I proceed to decide the case on merits.



6. Prima facie, I find that the appellant has availed Cenvat credit of service tax paid on CHA and C&F services availed for goods cleared for export. This fact is not in dispute. The adjudicating authority disallowed said Cenvat credit and confirmed the demand on the ground that said services are not 'input service' as defined in Rule 2(l) of the Cenvat Credit Rules, 2004. Hence, aggrieved with the impugned order, the appellant has preferred the present appeal. **The period covered in the present appeal is from 2004-05 to 2006-07.**

7. In this regard, I find that the case was kept in abeyance since issue involved was already settled by this appellate forum vide OIA No. No.82 to 85/2008(Ahd-III)CE/KCG/Commr(A) dated 04.09.2008 passed in case of M/s. Deepkiran Foods Pvt. Ltd., Dantali. But this OIA was challenged by the department before the CESTAT, Ahmedabad. The CESTAT vide Order No. A/1493-1508/WZB/AHD/2011 dated 18.08.2011 rejected the departmental appeals on the basis of Larger Bench decision of the Tribunal in the case of ABB Ltd. Vs. CCE & ST, Bangalore [2009(15) STR-23(Tri.LB)]. In the appeal before the High Court of Karnataka, the Hon'ble Court upheld the decision of the said Larger Bench of the Tribunal. As against this order of the High Court of Karnataka, the department filed Civil Application No.11402/2016 against ABB Ltd. before the Hon'ble Supreme Court of India. Similarly, the department had also filed Civil Application No. 11877-11884/2016 against said M/s. Deepkiran Foods Pvt. Ltd. which were tagged with Civil Appeal No.11710/2016 filed by CCE, Belgaum Vs. M/s. Vasavadatta Cements Ltd. The Hon'ble Supreme Court of India vide judgement dated 18.01.2018 [reported in 2018(11) GSTL-3 (SC)] on the subject matter has categorically discussed the words and phrase "from the place of removal" as it stood in the definition of 'input service' in Rule 2(l) ibid prior to amendment w.e.f. 01.04.2008 and dismissed the departmental appeal. As a result, the said order of the Larger Bench of the tribunal in case of ABB Ltd. attained finality. However, I find that in the instant case, the issue involved is availing of Cenvat credit of service tax paid on CHA and C&F services for goods cleared for export. I find that in catena of judgements of higher appellate forum, it is categorically held that 'place of removal' shall be port/ICD/air-port, as the case may be, for the goods cleared for export. Hence, the services of CHA and C&F availed shall necessarily constitute 'input service' and the assessee shall be eligible for availing Cenvat credit of service tax paid on it.

Following the ratio of this judgment of the Hon'ble Supreme Court of India, I hold that the appellant is eligible for availing Cenvat credit of service tax paid on CHA and C&F services availed for export of goods and accordingly allow the



appeal filed by the appellant with consequential relief, if any, as per law and set-aside the impugned order.

8. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.

उमा शंकर


(उमा शंकर)

केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील्स)

Dt. 29.08.2018

Attested:

B.A. Patel
05/09/18
(B.A. Patel)
Supdt.(Appeals)
Central GST, Ahmedabad.



BY SPEED POST TO:

M/s. Windsor Machines Ltd.,
Plot No.6&7, GIDC, Chhatral,
Taluka-Kalol, Distt. Gandhinagar.

Copy to:-

- (1) The Chief Commissioner, CGST, Ahmedabad Zone.
- (2) The Commissioner, CGST, Gandhinagar (RRA Section).
- (3) The Asstt. Commissioner, CGST, Division Kalol.
- (4) The Asstt. Commr(System), CGST, Gandhinagar.
(for uploading OIA on website)
- (5) Guard file
- (6) P.A. file.